

Date: 17 September, 2025

To.

The Listing Department BSE Limited

Department of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

<u>Scrip Code- 532771</u>

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G Bandra Kurla Complex Mumbai – 400 051

Symbol- JHS

<u>Subject: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations')</u>

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30, with Schedule III part A para A of SEBI Listing Regulation, we enclose herewith copies of newspaper advertisements published in Business Standard (English) and Business Standard (Hindi), regarding initiation of 100 days campaign named "Saksham Niveshak" by Investor Education and Protection Fund Authority, Ministry of Corporate affairs.

The above information is also available on the website of the Company at www.svendgaard.com.

This is for your information and records. Thanking You

Yours Faithfully,
For JHS Svendgaard Laboratories Limited

Komal Jha
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: A/a



JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED Corporate Identity Number: L74110HP2004PLC0275 Regd. Office: Trilokpur Road, Kheri Kala -Amb, Tehsil - Nahan,

Distt: Sirmaur, Himachal Pradesh-173030 Ph. No.: 011-40539487 • Fax No. 011-26900434 Website: www.svendgaard.com • email: cs@svendgaard.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR 100 DAYS CAMPAIGN- "SAKSHAM NIVESHAK" Notice is hereby given to the Shareholders of JHS Svendgaard Laboratories Limited ("you Company") that pursuant to Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPFA"), Ministry of Corporate affairs ("MCA") letter dated July 16, 2025, your Company has started 100 days campaign "Saksham Niveshak" starting from July 28, 2025 to November 6, 2025. During this Campaign all the shareholders who have not claimed their Dividend or have not updated their KYC & nomination details or faced any issues related to unclaimed dividends and shares may write to the Company Registrar and Transfer Agent ("RTA") i.e. Alankit Assignments Limited at their address : Alankit Heights, 3E/7, Jhandewalan Extension, New Delhi- 110 055 or at e-mail id rta@alankit.com and further e-mail to the company at: cs@svendgaard.com.

A SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF SHARES TRANSFER DEEDS FOR PHYSICAL SHARES

As per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July 2025, the special window for re-lodgement of transfer deeds is open for a period of six months from July 07, 2025 to January 06, 2026. Shareholders are requested to re-lodge after rectification of error with Registrar Transfer Agent (RTA) by 06.01.2026.

Company Secretary

Date: 16/09/2025



Cummins India Limited

Read. Office: Cummins India Office Campus. ower A, 5th Floor, Survey No. 21, Balewadi, Pune 411 045, Maharashtra, India (CIN: L29112PN1962PLC012276) Tel.: (020) 67067000 Fax: (020) 067067015 Website: www.cumminsindia.com Email: cil.investors@cummins.com

Notice to Shareholders 100 Days Campaign - "Saksham Niveshak"

The Shareholders of the Company are hereby informed that Investor Education and Protection Fund Authority, Ministry of Corporate Affairs has initiated a 100 days campaign named "Saksham Niveshak" from July 28, 2025 to November 6, 2025. Further, as part of this campaign, the Company encourages all the shareholders whose dividends have been unpaid/unclaimed to update their KYC details viz. PAN, Bank details, Specimen signature, Contact details, Nomination information, etc. by sending the following documents to the RTA:

Shareholders holding shares in demat mode	1.Update your KYC details with your Depository Participant (DP) 2.Submit self-attested copy of Client master list (CML) to RTA or upload the same on RTA Website.
Shareholders holding shares in physical mode	Submit below documents in hard copy to RTA of the Company, along-with val supporting documents: 1.Form ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13 (For Nomination) with supporting documents 2.Copy of expired DD / Warrant if you are in possession of the same 3.Cancelled Cheque stating your nam as account holder

The Shareholders are hereby requested to contact for any queries / send hard copies of above documents to our Registrar and Transfer Agent (RTA) namely MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited), Unit: Cummins India Limited, C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai -400 083: Phone No.: 81081 16767; Fax No.: (022) 4918 6060; E-mail:

rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com. Further, the statement of Unpaid/Unclaimed Dividends and underlying shares transferred/proposed to be transferred to IEPF are available shares transferred/proposed to be transferred to IEPF are available on the website of the Company and can be directly accessed through

The Shareholders of the Company are requested to update their KYC Details, and claim their unpaid/unclaimed dividend, in order to prevent the respective dividend and underlying shares, from being transferred to IEPFA.

Place: Pune Date: September 16, 2025 For Cummins India Limited Vinaya A. Joshi Company Secretary &

Compliance Officer

Membership No.: A25096

Market wisdom, straight from the sharpest minds in the game.

Cut through the noise every day with expert columns that decode trends before they unfold, only in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to **57575** or email order@bsmail.in

Business Standard Insight Out

The Maharashtra Insecticides Limited (MIL)

A Subsidiary of The Maharashtra Agro-In Development Corporation Ltd (A Govt, Of Maharashtra Undertaking) Pesticide Division 'Krushi-Udyog Bhavan', Dinkarro: Desai Road, Aarey Milk Colony, Goregaon (E), Mumbai-400065 Ph. (022) 28719340 Email: pesticides65maidc@gmail.com

News Paper Advertisement

MAIDC/Pest/MIL Lote Leave & License RFP/2025-2026 Request for Proposals (RFP) for Long Term Leave & License of The Maharashtra Insecticides Limited, (MIL) Lote Parshuram

Dist. Ratnagiri on "As Is Where Is Basis". The MIL invites RFP for Long Term Leave & License of MIL, Lote Parshuram, Dist. Ratnagiri. The RFP bid is online through e-tendering portal

www.mahatenders.gov.in, interested bidders shall visit the above

e-tendering portal for the detailed bid document. The MIL reserves right to accept or reject any or all bids either in part or in full without assigning any reason whatsoever. The pre-bid conference may be arranged on 25/09/2025 at 11.00 hrs on above address. The RFP submission will be from

17/09/2025 to 11/10/2025 on or before 17.30 hrs. Chief Executive For The MIL.

RPG LIFE SCIENCES

An **NRPG** Company

RPG LIFE SCIENCES LIMITED

Regd. office: RPG House, 463, Dr. Annie Besant Road,

Worli, Mumbai 400 030. CIN: L24232MH2007PLC169354;

Tel: +91-22-6975 7100:

E-mail: info@rpglifesciences.com; Web: www.rpglifesciences.com

REMINDER- SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT

OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

n furtherance to our public notice dated July 17, 2025, with respect to one-time

pecial window offered pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-

OD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, we hereby reiterate that the special

rindow for re-lodgment of transfer requests in case of physical shares is open till

anuary 06, 2026. This special window facility is applicable to those cases where

riginal share transfer requests were lodged prior to April 01, 2019 and were

eturned/unattended or rejected due to deficiencies in documents, process or

ny other reason. Please note that the re-lodged requests for transfer of equity

shares shall be processed only in dematerialized form, subject to successful

erification of documents. Eligible shareholders may submit their requests along

vith the requisite documents to the Company's Registrar and Transfer Agent

RTA) at MUFG Intime India Pvt. Ltd., C- 101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli

ASSAM POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. APDCL/CGM (RE)/Jonai/Transmission line-03

Bids are invited from eligible bidders for single stage two envelopes

bidding for "Construction of 11kV single circuit line with 8 (Eight) Nos.

of 132 kV, D+6 type tower and 24 (Twenty Four) SP-76 GI Steel Tubular

Pole for crossing over tributaries of Brahmaputra River as a part of

extension of single circuit 11kV Borong feeder from last Four pole at

Borong Krishnapur for electrification of the villages (Mecheki Chapori) of Jonai under North Lakhimpur Electrical Circle, APDCL".

Interested bidders will be able to view & download the detailed bidding

documents in the website of APDCL www.apdcl.org & https://www.

assamtenders.gov.in; the e-Procurement System of Govt. of Assam w.e.f. 17-09-2025. Interested Bidders are requested to create their own

Schedule to the Invitation of tender:

user ID & password in the e-tendering portal, if not created earlier.

4. Starting Date of submission of tender: 1500 Hrs. of 19-09-2025

5. Last Date of submission of Tenders : 1200 Hrs. of 25-09-2025

notification without assigning any reason thereof.

The prospective bidders are required to have their 'Digital Signature's

(both signing & encryption) for participating in the e-tendering.

Interested bidders can contact the office of the CGM (RE), APDCL, for

Please pay your energy bill on time and help us to serve you better!

N.B.: Undersigned reserves the right to change/ modify/ cancel the

For RPG Life Sciences Limited

Head - Legal & Company Secretary

: 180 days from the last date of

submission of Bid

: 1500 Hrs. of 17-09-2025

: 1500 Hrs. of 18-09-2025

: 1200 Hrs. of 26-09-2025

Sd/- Chief General Manager (RE), APDCL Bijulee Bhawan (Annex. Building) Paltanbazar, Guwahati - 781001 (Assam)

e-mail: cgmre.aseb@gmail.com

IRIS Business Services Limited

Registered Office: T-231, Tower 2, 3rd Floor, International

Infotech Park, Vashi - 400703, Maharashtra, India

Tel: +91 22 67231000, Email: cs@irisbusiness.com,

Website: www.irisbusiness.com, Fax: +91 22 2781 4434

CIN: L72900MH2000PLC128943

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER

REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Special window for re-lodgement of transfer requests of

physical shares till 06.01.2026

Notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-

PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, the Company has opened a special window

exclusively for the re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/returned/not attended due to the deficiency in

the documents/process/or otherwise. The special window will remain open for a

https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/jul-2025/ease-of-doing-investment-special-

Relevant investors are encouraged to take advantage of this one-time window. The

transfer request of physical shares can be re-lodged with our Registrar and Share Transfer Agenda (RTA) within the above-mentioned period at the following address:

During this period, the securities that are re-lodged for transfer shall be issued only in

demat mode. Shareholders must have a demat account and provide its Client Master

List ('CML'), along with the transfer documents and share certificate, while re-lodging

the transfer request with RTA. Due process shall be followed for such transfer-cum-

We reiterate that re-lodgement will be allowed only in those cases where transfer

deed for physical shares were lodged before April 01, 2019 and were

rejected/returned/not attended due to the deficiency in the documents/process/or

For any further information or clarification, you may kindly contact at

By Order of the Board of Directors of

IRIS Business Services Limited

ICSI Membership No. ACS 35139

Santoshkumar Sharma

Date: September 16, 2025

Company Secretary

MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited),

window-for-re-lodgement-of-transfer-requests-of-physical-shares_94973.html Re-lodgement of legally valid and complete documents for transfer of physical shares, where there is no dispute on ownership will be considered. Shareholders of the Company may submit their request till January 06, 2026, with the Registrar &

period of six months from July 07, 2025 to January 06, 2026.

Share Transfer Agent (RTA) of the Company.

The details of RTA are as under:

C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg,

Vikhroli (West), Mumbai - 400083,

E-mail: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

Maharashtra, India

Tel No.: +91-22-49186000

cs@irisbusiness.com

Place: Navi Mumbai

Please find the circular below for your reference and necessary action:

Rajesh Shirambekar

West), Mumbai - 400083.

Place: Mumbai

1. Bid validity

3. Pre bid Meeting

6. Date of opening of Bid

necessary assistance.

JiRIS

2. Publishing & Download of Bid

Date: 16.09.2025

(A Govt. of Assam Public Limited Company **TENDER NOTICE No. 25/04**

ASSAM POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

E-tenders in two parts viz.1) Techno-Commercial Bids and 2) Price Bids, ith validity up to 180 days are hereby invited from eligible sole/consortium of bidders through this Request for Proposal (RFP) for "Selection of System Integrator (SI) for Supply, Installation, Commissioning, Integration, Implementation, Capacity building and Support including ATS and FMS for Power Distribution Network Analysis Solution at APDCL." Interested pidders may view the detailed Request for Proposal (RFP) on website www.assamtenders.gov.in as well as www.apdcl.org.

Key Dates:		
Tender publishing and download start date & time	17.09.2025	10:00 Hours
Last date for submitting Pre-bid queries	22.09.2025	17:00 Hours
Pre-Bid meeting date & time	23.09.2025	12:30 Hours
Bid submission start date and time	26.09.2025	10:00 Hours
Last date of Bid Submission	08.10.2025	17:00 Hours
Bid opening date & time	10.10.2025	14:00 Hours
Sd/- Chief General	Manager (PP	&D), APDCL

6th Floor, Bijulee Bhawan, Paltanbazar, Ghy-1 Please pay your energy bill on time and help us to serve you better!



CIN: L24241MH1988PLC097781

Registered Office: Godrej One, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai - 400 079, Maharashtra.

Tel.: 022-2518 8010; Fax: 022-2518 8066 Website: www.godrejindustries.com; Email id: investor@godrejinds.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares Notice is hereby given to Shareholders that in terms of SEBI Circular No. SEBI/ HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, informing about a special window of six months has been introduced to facilitate investors in re-lodging transfer requests for physical shares.

This special window is open from July 7, 2025, to January 6, 2026 and is availab only for transfer deeds for physical shares that were originally lodged prior to April 1, 2019, and were rejected / returned / not attended to due to deficiency in the documents / process / or otherwise.

As per the referred SEBI circular, if the transfer documents are found in order by the Company's Registrar & Share Transfer Agent ('RTA'), transferred shares will be issued only in demat mode. The Investor must have a demat account and provide its Client Master List (CML), along with the transfer documents and share certificate, while re-lodging the documents for transfer with RTA. Due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests. Transfer requests submitted after January 6, 2026, will not be accepted by the Company/RTA.

Eligible Investors are requested to contact the Company's RTA, within the above mentioned period, at their office: Computech Sharecap Limited, Unit: Godrej Industries Limited, 147, Mahatma Gandhi Road, Opp. Jehangir Art Gallery, Fort, Mumbai-400 001, Maharashtra or at email ID helpdesk@computechsharecap.in or further assistance.

By order of the Board of Directors of Godrej Industries Limited Anupama Kamble Company Secretary & Compliance Officer (FCS 12730)

ARTEMIS

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED CIN: L85110DL2004PLC126414

Registered Office: Plot No. 14, Sector- 20, Dwarka, Delhi-110075 Corporate Office: Artemis Hospital, Sector- 51, Gurugram, Haryana- 122001 Tel.: +91-124-4511 111

E-mail: investor@artemishospitals.com | Website: www.artemishospitals.com SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS

OF PHYSICAL SHARES Notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD

PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, a Special Window has been opened for a period of six months, from July 7, 2025 to January 6, 2026, for the re-lodgement of During this period, transfer deeds that were originally lodged prior to April 1, 2019

process/ or otherwise, may be re-lodged for processing. Accordingly, eligible shareholders who missed the earlier deadline of March 31 2021 for re-lodging the above-mentioned transfer requests, are encouraged to re lodge them along with the requisite documents to the Company's Registrar and Transfer Agent i.e., Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055; Contact No.: 011-42541234/ 23541234; Email

but were rejected/ returned/ not attended to due to deficiency in the document

rta@alankit.com. Please note that the shares re-lodged for transfer shall be processed only in dema mode.

For Artemis Medicare Services Limited

Date: September 16, 2025

Company Secretary & Compliance Officer

Registered Office: Bordoloi Nagar, Bylane-6, Sector, Z. Tinsuka, Assam 786125, Tel: 0374-2330020 Corporate Office: 12, Pretoria Street, Kolkata - 700071, Tellephone: 033-4034 1000, Telefax: 033-4031 1015 Ernal: see @jiklin, Website: www.jameswarrentes.com TICE—2⁵⁰⁰ REMINDER TO SHAREHOLDERS REGARDING SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMEN OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES her to our Notice dated. July 18, 2025, notice is once again berethy given to the shareholders that pursuant!

OFTRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

unther to our Notice dated July 18, 2025, notice is once again hereby given to the shareholders that pursuant to
SEBI Circular No. SEBIHOMIRSD.MIRSD.PoD/P.CIR/2025/97 dated July 02, 2025, a special window has beer
pened for re-lodgement of transfer requests of Physical shares. This applies to Transfer Deeds lodged prior to
prior 10, 2019 and were rejected returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise
her e-lodgement window is a fready open from July 07, 2025 and shall remain open till January 96, 2025 and a
uch transfers shall be processed and would be issued to the transfere(s) in demat mode only. Due process shall
the followed for south transfer-cum-demat request salong with the requisite documents to the Company or its
legibles hareholder(s) may submit their transfer request along with the requisite documents to the Company or
local statement of the company or
constant of the process of the company or
local statement
local st

James Warren Tea Limited

Registrar and Share Transfer Agent (RTA) James Warren Tea Limited 12, Pretoria Street, Kolkata-700071 Email id: sec@jwtLin Ph No.: 033-4034 1000 Ph No.: 033-2248 2248 For James Warren Tea Ltd

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) (A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.) CIN: L40101HP1988GOI008409 NOTICE INVITING REQUEST FOR SELECTION (RfS)

RfP No: SJVN/CC-Delhi/REIA/2025/WIND-3 Date: 16.09.202 SJVN Limited has been designated as a Renewable Energy Implementing Agency (REIA) vide Office Memorandum F.No 283/33/2020-GRID SOLAR dated 24.04.2023 issued by Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Govt of India. SJVN Limited hereby invites ONLINE bids from the eligible bidders for "Selection of Wind Power Developers for setting up of 600 MW ISTS-connected Wind Power Projects in India under Tariff-Based Competitive Bidding' The Request for Selection (RfS) Document can be download from the websites www.sjvn.nic.in, www.eprocure.gov.in and the e-tendering Portal https://www.bharat-electronictender.com from 17.09.2025 to 31.10.2025 till 13:00 Hrs. The Bid is to be submitted ONLINE on the etendering Portal https://www.bharat-electronictender.com. The prospective bidders are requested to remain updated through above mentioned websites for any clarification or notification concerned with this RfS including the publishing of RfS Documents, as no further information vill be published in respect of this RfS through any other media.

> DY. Genaral Manager (REIA/C&P) 6th Floor, Tower 1, NBCC Office Complex, East Kidwai Nagar

New Delhi-110023, Ph.- 011-61901906/61901953 Our Shared Vision: 5000 MW by 2023; 25000 MW by 2030; 50000 MW by 2040

Coromandel



Coromandel International Limited

Regd. Office: "Coromandel House", 1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500 003, Telangana Email ID: investorsgrievance@coromandel.murugappa.com Website: www.coromandel.biz CIN: L24120TG1961PLC000892, Tel No.: +91-40-6699 7300 / 7500

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHARE HOLDERS

1) Special window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2nd 2025, shareholders are hereby informed that a special Window has been opened for a period of six (6) months, from July 7th 2025 to January 6th, 2026, for the re-lodgement of transfer requests for physical share certificates.

This facility is specifically available only for transfer deed lodged prior to April 01st, 2019 which were rejected, returned, or not attended due to deficiencies in documents, process or otherwise. The shares relodged for transfer will be processed only in demat mode. Shareholders may avail this opportunity by submitting the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent for transfer of securities.

2) 100 Days Campaign - "Saksham Niveshak" - for KYC and other related updations and Shareholder Engagement to prevent transfer of Unpaid / Unclaimed Dividends to IEPF

The Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), Ministry of Corporate Affairs vide its letter dated July 16,2025 has initiated a 100 days campaign titled "Saksham Niveshak", starting from July 28, 2025 to November 6, 2025. This campaign has been launched by IEPFA, to encourage the shareholders to claim the unpaid / unclaimed dividends and to update the KYC details [Bank account mandate, PAN, Nominee Registration, Contact information (email, mobile number, address)] with the Company's Registrar and Transfer Agent (R&TA), i.e., KFin Technologies Limited.

Shareholders of the Company who have not claimed their dividend amounts which is lying with the Company or have not updated / incomplete KYC records are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) at the address mentioned below / write to Company's Registrar and Share Transfer Agent: KFin Technologies Limited, (Unit: Coromandel International Limited), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032, Telangana our Registrar and Share Transfer Agent or mail to einward.ris@kfintech.com.

> For Coromandel International Limited B. Shanmugasundaram Company Secretary & Compliance Officer

mahindra

MUTUAL FUND

MAHINDRA MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

Registered Office: 4th Floor, A-wing, Mahindra Towers, Dr. G M Bhosale Marg, P K Kurne Chowk, Mumbai - 400 018.

Corporate Office: Unit No. 204, 2nd Floor, Amiti Building, Piramal Agastya Corporate Park, LBS Road, Kamani Junction, Kurla (West). Mumbai - 400 070.

Tel: 1800 4196244; website: www.mahindramanulife.com;

email id: mfinvestors@mahindramanulife.com

NOTICE NO. 30/2025

September 16, 2025

Declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') under Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund

Notice is hereby given that Mahindra Manulife Trustee Private Limited, Trustee to Mahindra Manulife Mutual Fund ('the Fund'), has approved the declaration of IDCW under Quarterly and Discretionary IDCW Option(s) of Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund, an open-ended dynamic debt scheme investing across duration. A relatively high interest rate risk and moderate credit risk ("the Scheme") as per the details given below.

	Name of the Scheme(s)	Plan(s)/Option(s)	Quantum of IDCW# (Rs. per unit)	Record Date*	Face Value (Rs. per unit)	NAV as on 15 th September 2025 (Rs. per unit)
	Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund	Regular Plan - Quarterly IDCW Option	0.10		10	10.3325
		Direct Plan - Quarterly IDCW Option 0.10 19 th			10	11.3689
		Regular Plan - Discretionary IDCW Option	0.10	September 2025	10	11.4327
Bona rana	Direct Plan - Discretionary IDCW Option	0.10		10	12.5447	

As reduced by the amount of applicable statutory levy. Distribution of the above IDCW is subject to the availability of distributable surplus and may be lower, depending on the distributable surplus available on the Record Date. *If in any case the Record Date falls on a non-business day, the immediately following business day shall be deemed

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW Option(s) of the Scheme/Plan(s) would fall to the extent of payout and statutory levy,

All Unit holders / Beneficial Owners under the IDCW Option(s) of the abovementioned Scheme / Plan(s) whose names appear in the records of the Registrar, Computer Age Management Services Ltd. / Statement of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as applicable, as at the close of the business hours on the Record Date shall be eligible to receive the IDCW.

With regard to Unit holders under the IDCW Option(s) of the abovementioned Scheme/ Plan(s), who have opted for IDCW Reinvestment facility, the IDCW due will be reinvested by allotting units for the IDCW amount (on the next Business Day after the Record Date) at a price based on the prevailing ex-IDCW NAV per unit on the Record Date.

For Mahindra Manulife Investment Management Private Limited

Place: Mumbai Date: September 16, 2025

Sd/-Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.


III Manulife

838 मेगावॉट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए सुजलॉन संग गठजोड़ ₹ 387.9 पिछला बंद भाव



वैश्विक स्तर पर समूचे सेमीकंडक्टर समाधानों के लिए एनोरा से साझेदारी ₹ 1,222.8 पिछला बंद भाव

स्पाइसजेट पट्टा समझौता ₹ 32.7 आज का बंद भाव



0.8 %

जॉन कॉकरिल इंडिया

टाटा स्टील से 80 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला

संक्षेप में

रेजरपे ने ऐपल पे को जोड़ा अपने साथ

फिनटेक फर्म रेजरपे ने भारतीय व्यवसायियों के लिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान में सहायता के लिए भुगतान व्यवस्था के तौर पर ऐपल पे को अपने साथ जोड़ा है। बेंगलूरु स्थित कंपनी का दावा है कि वह सीमा-पार लेनदेन के लिए ऐपल पे को सक्षम बनाने वाली देश की पहली ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर है।रेजरपे ने कहा कि वह मोकोबारा, अकासा एयर, पर्नियाज पॉप अप शॉप, सब्यसाची, निश हेयर और हाउस ऑफ मसाबा जैसे व्यापारियों के लिए ऐपल पे तक पहुंच मुहैया कराएगी।ऐपल पे के 50 करोड़ वैश्विक उपयोगकर्ता हैं और अमेरिका में प्रत्येक 10 में से 9 व्यवसायी

इंडिया रेटिंग ने अदाणी

(एजीईएल) की दीर्घावधि रेटिंग को 'एए-' से बढ़ाकर 'एए' कर दिया है। रेटिंग एजेंसी द्वारा बढ़ाई गई रेटिंग से कंपनी की ऋण चुकाने की बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाता है। आउटलुक स्थिर है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार, एजीईएल द्वारा परिचालन से मिलने वाली रकम का प्रवाह बाजार में उथल-पुथल की स्थिति में भी ऋण चुकाने जैसे दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जिससे दोबारा ऋण की जरूरतें कम हो जाएंगी।वित्त वर्ष 26 में कंपनी की कल पनर्भगतान बाध्यता 3,880 करोड रुपये अनुमानित है, जिसमें से 2,070 करोड़ रुपये के लिए दोबारा ऋण लिए जाने की संभावना है।इसके बाद, वित्त वर्ष 27 में 2,550 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 28 में 2,800 करोड़ रुपये चुकाने के लिए दोबारा ऋण लेने की की आवश्यकता नहीं है। *बीएस*

टाटा पावर कंपनी



₹ 396.1 आज का बंद भाव

₹ 1,272.2 आज का बंद भाव

4.0 % ▲

₹ 4,380.8 पिछला बंद भाव ₹ 4,513.4 आज का बंद भाव

इसके जरिये भुगतान स्वीकार करते हैं।

ग्रीन की रेटिंग बढ़ाई

इंडिया रेटिंग्स ने अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

कम दर का लाभ पहुंचा उपभोक्ताओं के पास

एफएमसीजी कंपनियों ने उपभोक्ताओं को देना शुरू कर दिया जीएसटी दरों में कटौती का लाभ 'जीएसटी छूट को प्रमुखता से

अक्षरा श्रीवास्तव नई दिल्ली, 16 सितंबर

निक उपभोक्ता वस्तु (एफएमसीजी) क्षेत्र की कई कंपनियों का कहना है कि वे जीएसटी दरों . में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगी। डेरी क्षेत्र की दिग्गज मदर डेयरी ने मंगलवार को अपने सफल ब्रांड के तहत मिल्कशेक, पनीर और जैम से लेकर फ्रोजन उत्पादों के अपने पोर्टफोलियो में शामिल खाद्य पदार्थों की दरों में कटौती का ऐलान किया। दाम में यह कटौती 22 सितंबर से लागू होगी।

मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश ने कहा, 'डेरी और प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों पर जीएसटी कटौती एक प्रगतिशील कदम है जिससे खपत में खासा इजाफा होगा तथा सुरक्षित, अधिक गुणवत्ता वाले पैकेटबंद उत्पादों को अपनाने में तेजी आएगी। उपभोक्ताओं पर केंद्रित संगठन के तौर पर हम अपने ग्राहकों को 100 प्रतिशत का कर लाभ प्रदान कर रहे हैं।'

इस तरह 200 ग्राम और 400 ग्राम वाले पनीर पैक के दाम 95 रुपये और 180 रुपये से घटकर क्रमशः 92 रुपये और 174 रुपये हो जाएंगे। पैकट बंद पनीर 22 सितंबर से जीएसटी से बाहर हो जाएगा। मिल्कशेक के 180 मिलीलीटर वाले पैक अब 30 रुपये के बजाय 28 रुपये में बिकेंगे। 500 ग्राम और 100 ग्राम मक्खन के दाम घटकर 285 और 58 रुपये रह जाएंगे जबकि पहले इनके दाम 305 रुपये और 62 रुपये थे। चीज क्युब के 180 ग्राम पैक की कीमत पहले के 145 रुपये से घटकर 135 रुपये रह जाएगी।

टमाटर प्यूरी के 200 ग्राम वाले पैक की कीमत पहले के 27 रुपये से घटकर 25 रुपये हो जाएगी जबकि अचार के 400 ग्राम वाले पैक की कीमत पहले के 130 रुपये से घटकर 120 रुपये रह जाएगी। पहले ये चीजें 12 प्रतिशत वाले स्लैब में थीं और अब 5 प्रतिशत वाले



स्लैब में आ गई हैं। इस बीच आइसक्रीम अब 5 प्रतिशत वाले स्लैब में आ जाएगी। इस पर पहले 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था। जिस चोकोबार, वनीला कप और आइस कैंडी की कीमत पहले 10 रुपये थी. अब उनकी कीमत 9 रुपये होगी। वहीं 100 मिलीलीटर वाले बटरस्कॉच कोन की कीमत पहले के 35 रुपये से घटकर 30 रुपये हो जाएगी और कसाटा के 150 मिलीलीटर वाले पैक की कीमत पहले के 70 रुपये से घटकर 60 रुपये हो जाएगी।

बंदलिश ने कहा. 'इस बदलाव की वजह से हमारा पुरा पोर्टफोलियो अब या तो छुट/शून्य वाले अथवा 5 प्रतिशत के सबसे निचले वाले स्लैब में आ गया है। हमें विश्वास है कि इस उपाय का पूरी मूल्य श्रृंखला पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बढ़ी हुई मांग से किसानों को लाभ होगा और साथ ही उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों तथा बेहतर पहुंच का लाभ मिलेगा।

उपभोक्ता वस्तुओं की प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने शनिवार को सरकार के निर्देशानुसार अखबारों के विज्ञापनों में अपने पोर्टफोलियो के कई उत्पादों की कीमतों में कटौती का ऐलान किया। 22 सितंबर से डव शैम्प की 340 मिलीलीटर वाली बोतल की कीमत 490 रुपये से घटकर 435 रुपये रह जाएगी, जबकि लाइफबॉय साबुन के 75 ग्राम के चार पैकेट की कीमत 68 रुपये से घटकर 60 रुपये हो जाएगी। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू के 350 मिलीलीटर वाले पैक की कीमत 430 रुपये से घटकर 370 रुपये हो जाएगी। खाद्य पदार्थों की श्रेणी में बुस्ट के 300 ग्राम वाले पैक की कीमत 124 रुपये से घटकर 110 रुपये हो जाएगी, जबकि नॉर सूप के 67 ग्राम वाले पैक की कीमत 65 रुपये से घटकर 55 रुपये हो जाएगी और ब्रू कॉफी के 75 ग्राम वाले पैक की कीमत 300 रुपये से घटकर 270 रुपये हो जाएगी।

प्रदर्शित करें खुदरा विक्रेता

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नेटवर्क के माध्यम से वे 'जीएसटी के खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे हाल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में किए गए संशोधन के कारण मिलने वाली छूट को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और विज्ञापन के जरिये उसकी जानकारी दें। भारतीय खुदरा विक्रेता संघ को भेजे एक पत्र में, उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन (डीपीआईआईटी) ने कहा कि खदरा विक्रेताओं को रसीद/बिल में जीएसटी में कटौती को जीएसटी छट के रूप में दर्शाना चाहिए और ज्यादा प्रभाव वाले उत्पादों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

डीपीआईआईटी ने कहा, 'अपने

कारण छुट' को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और उसका विज्ञापन करें। उदाहरण के लिए, अपने खुदरा नेटवर्क के माध्यम से पोस्टर/ फ्लायर्स और विज्ञापन (प्रिंट, टीवी और ऑनलाइन) के माध्यम से ऐसा किया जाना चाहिए।' विभाग ने यह भी सुझाव दिया है कि इस त्योहारी सीजनके दौरान बिक्री के आंकड़ों पर नजर रखी जाए और विभिन्न माध्यमों से इसकी जानकारी दी जाए। 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी में बदलाव लागू होने पर साबुन से लेकर कार, शैंपू से लेकर ट्रैक्टर और एयर कंडीशनर तक लगभग 400 उत्पाद सस्ते हो जाएंगे।

यूनिलीवर ने सीएफओ बने श्रीनिवास

यनिलीवर पीएलसी ने श्रीनिवास फाटक को अपना मख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नियक्त करने की आज घोषणा की। उन्हें तत्काल प्रभाव से निदेशक मंडल और यनिलीवर लीडरशिप एक्जीक्यटिव में भी लिया गया है। यूनिलीवर ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। डव साबुन बनाने वाली इस कंपनी ने फरवरी 2025 में घोषणा की थी कि फाटक, जो उस समय उप मुख्य वित्तीय अधिकारी और समूह नियंत्रक थे, कार्यवाहक मुख्य वित्तीय अधिकारी बनेंगे और किसी स्थायों मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति के लिए तलाश की जाएगी।

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 501, सालकॉन ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली–110025

नीलामी सूचना शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि उन्हें बैंक से प्राप्त स्वर्ण ऋण/ओं को विभिन्न मांगो और सूचनाओं बावजूद, जिनमें बैंक

द्वारा जारी व्यक्तिगत सूचना भी शामिल है, समायोजित नहीं किया गया है। सभी उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि बैंक के साथ प्रत्याभूत के रूप में रखे गए स्वर्ण आभूषणों की नीलामी का निर्णय लिया गया है और यह निर्घारित किया गया है कि यह नीलामी उस शाखा के प रिसर मों **पूर्वाह, 11 : 00 बजे** होगी जहां से ऋण प्राप्त किया गया था। सभी, जिसमें खात धारक और आम जनता शामिल है, इस नीलामी में नीलामी के श तों और नियमों के अ नसार भाग ले सकते है। ीलामी दिनांक 26.09.2025@ पर्वाह्न 11:00

	X-1161 1 1 1 1 1 1		
क्र. सं.	शाखा	खाता संख्या	खाता धारक नाम
1	अंबाला	104046510021	सतपाल सिंह
बैंक के प	के पास किसी भी खाते को नीलामी से हटाने या नीलामी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्व		
करने क	^{। अधिकार है।} प्राधिकृ	त अधिकारी, शिवारि	क स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

अभियान केपिटल (इंडिया) प्रा.लि. (आरबीआई के साथ पंजीकृत एक एनबीएफसी) CIN : U65999MH1995PTC289390 पंजीकृत कार्यालय - 903, लोधा सुप्रीमस, डॉ. ई. मोसेस रोड, वर्ली नाका, मुंबई महाराष्ट्र 400018 एवं कॉर्पोरेट कार्यालय - 710ए-711-712-713, स्पेज प्लैटिनम टॉवर मालिबू टाउन, सेक्टर-47,

करनाल शाखा स्थानांतरण की सूचना अभियान कैपिटल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एसीआईपीएल) पूर्व में डॉवेल फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था के जमाकर्ताओं, ग्राहक और आम जनता को यह सूचित

नये कार्यालय पते पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा । अभियान केपिटल (इंडिया) प्रा. लि. अभियान केपिटल (इंडिया) प्रा. लि. करनाल दूसरी मंजिल अर्बन ईस्टेट एससीओ -एससीओ 22, पहली मंजिल, सेक्टर 8 शाखा २१२, सेक्टर-१२ करनाल, हरियाणा. करनाल 132001, हरियाणा.

pपया अधिक जानकारी के लिए या कोई सहायता के लिए आधिकारिक वेबसाईट https://www.abhiyancapital.com/ पर जायें, या नजदीकी शाखा या टोल फ्री नंबर 18002035050 पर संपर्क करें। ह/- प्राधिकृत हस्ताक्षरी अभियान केपिटल (इंडिया) प्रा. लि. दिनांक: 17-09-2025



कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) का हस्तांतरण

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार जिसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 (नियम) के साथ पढ़ा जाए, कंपनी को ऐसे सभी शेयरों को जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय से लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित करने का आदेश दिया गया है।

नियमों के प्रावधानों के अनुसार कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण (आरटीए) अभिलेखों में उपलब्ध नवीनतम पते पर संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत सूचना दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आईईपीएफ को अंतरित किए जाने वाले शेयरों का विवरण दिया गया है और ऐसे शेयरधारकों की सूची भी कंपनी की वेबसाइट http://www.bel-india.in/investors/#dividend पर प्रदर्शित की गई है।

इस संबंध में संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्त वर्ष 2017-18 और उसके बाद की अवधि के लिए 21 नवंबर, 2025 को या उससे पहले भुगतान न की गई/दावा न की गई लाभांश राशि का दावा करें अन्यथा ऐसे शेयर आईईपीएफ को अंतरित कर दिए जाएंगे। शेयरधारक यह नोट करें कि ऐसे हस्तांतरण पर, बिना दावा किए गए लाभांश और आईईपीएफ को स्थानांतरित किए गए शेयर दोनों जिसमें ऐसे शेयरों पर प्रोद्भूत सभी लाभ, यदि कोई हों. अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस लिए जा सकते हैं।

उपर्युक्त मामले पर किसी भी प्रश्र्न के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर स्थानांतरण एजेंट, एकीकृत रजिस्ट्री प्रबंधन सेवा प्रा.लि. सं. 30, रमणा रेसिडेंसी, चौथा क्रॉस संपिगे रोड, मल्लेश्वरम बेंगलूरु-560003 से संपर्क करें। दूरभाष-080-23460815/16/17/18 फैक्स-080-23460819. ई-मेल:

irg@integratedindia.in कते भारत इलेक्टॉनिक्स लिमिटेड एस श्रीनिवास 16 सितंबर 2025 कंपनी सचिव

आईटी-क्लाउड सॉल्यूशस, भारतीय स्टेट बैंक, ग्लोबल आईटी-सेन्टर, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614 शुद्धिपत्र सूचना

संदर्भ संख्याः IT Cloud Solutions/FY:2025-26/RFP/1371 दिनांकः 16.09.2025 शुद्धिपत्र संख्या 3 और आरएफपी संख्याः IT Cloud Solutions/FY:2025-26/RFP/1371 दिनांक 05.08.2025 के संदर्भ बैंक की वेबसाइट और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर प्रकाशित कर दिए गए हैं. विवरण के लिए, कृपया https://bank.sbi पर प्रोक्योरमेंट न्यूज और https://eprocure.gov.in/ पर 'लेटेस्ट एक्टिव कॉरिजेंडम' और ई-प्रोक्योरमेंट एजेंसी पोर्टल https://etender.sbi देखें.

उप महाप्रबंधक (आईटी-क्लाउड सॉल्यूशस)



प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी (सुशासन और श्रेष्ठता) विभाग स्टार हाउस -3 . पीएनबी-बीओआई टॉवर, सी -29. जी ब्लॉक . 10 वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051. ई-मेल: HOIT.G&E@bankofindia.co.ir प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

संदर्भ संख्या: बीओआई/एचओ/आईटी/2025-26/1640 दिनांक 12-09-2025 के माध्यम से नए नेटवर्क उपकरणों के एकीकरण और वार्षिक रखरखाव में सहायता के साथ-साथ बैंक के कोलोकेशन डीसी साइट और कोलोकेशन डीआर साइट पर विदेशी सीबीएस हेत सविधा प्रबंधन के लिए खरीदा GeM बोली संख्या GEM/2025/B/6678860 दिनांक 12-09-2025 उपर्युक्त आरएफपी बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट <u>www.bankofindia.co.in</u> पर "निविदा" खंड के अंतर्गत एवं GeM पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके बाद यदि कोई परिवर्तन होगा, तो उसे बैंक की वेबसाइट एवं GeM पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। प्रस्तत करने की अंतिम तिथि: 03.10.2025

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L74100HP2004PLC027558

पंजीकृत कार्यालय : त्रिलोकपुर मार्ग, खेड़ी कला — अंब, तहसील — नहान, जनपद — सिरमौर, हिमाचल प्रदेश — 173030 दूरमाष संः 011-40539487, फैक्स नं 011-26900434 वेबसाइट : www.svendgaard.com ● ईमेल : cs@svendgaard.com शेयरुघारकों हेतु 100 दिवसीय अभियान "सक्षम निवेशक" संबंधी सूचना

जेएचएस स्वेन्दगार्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड ('आपकी कंपनी') के शेयरधारकों को सूचना व गती है कि निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि प्राधिकरण **("आईईपीएफए")**, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (**एमसीए')** के पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 के अनुसार, आपकी कंपनी ने 28 जुलाई 2025 से प्रारंभ कर 6 नवंबर 2025 तक चलनेवाले 100 दिवसीय अभियान "सक्षम निवेशक" आरंभ किया है। इस प्रभियान की समयावधि में वे सभी शेयरधारकगण जिन्होंने अपने लाभांश का दावा नहीं किया है र अपने केवाईसी तथा नामांकन विवरण को अद्यतन नहीं किया है या दावारहित लाभांशों तथा शेयरों र संबंधित किसी भी समस्या का सामना किया है, वे कंपनी रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट **('आरटीए')** अर्थात् अलिकत असाइनमेंट्स लिमिटेड को उनके पते : अलिकत हाइट्स, उई./७, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली– 110 055 पर लिख सकते हैं या ई–मेल आईडी rta@alankit.com पर तथ ागे भविष्य में भी कंपनी को cs@svendgaard.com पर ई–मेल कर सकते हैं।

भौतिक शेयरों के शेयर हस्तॉंतरण विलेखों की पुनःप्रस्तुति हेत् एक विशेष खिडकी ोबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई 2025 के अनुसार, हरतांतरण विलेखों की पुनःप्रस्तुति की विशेष खिङकी 07 जुलाई 2025 से 06 जनवरी 2026 तक की छह माह की एकावधि के लिए खुली है। श्रेयरुवारकों से अनुरोध है कि वे त्रुटि सुधा बाद 06.01.2026 तक रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पुनः प्रस्तुति करें।

दिनाँक : 16/09/2025

बोर्ड के आदेशानुसा हस्ता./— कोमल झा कंपनी सचिव



Registered Office:19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay thei outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold tems/articles on 23 SEPTEMBER 2025 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

LUDHIANA - 25660000639714 | Model Town Jalandhar - L9001090144116441 .9001090142028582 | Nawanshahr - L9001090141243968 | Pakhowal Road Ludhiana - L9001090141403326

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

> Manage **AU Small Finance Bank Limited**

टाटा कंज्यूमर ने चाय ब्रांडों के दाम घटाए

कंज्यमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीसीपीएल) ने चाय की थोक कीमतों में नरमी की वजह से चाय के अपने कई ब्रांडों की कीमतों में कटौती की है। टाटा कंज्युमर प्रोडक्ट्स के भारत और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष (पैकेज्ड बेवरिजेज) पुनीत दास ने कहा, 'हम अपने कई ब्रांडों और सभी बाजारों में पहले ही कीमतों में कटौती कर चुके हैं।यह मोटे तौर पर लगभग तींसरी तिमाही तक जारी रहेगी, जब तक सारा नया स्टॉक आ चुका होगा।' दास ने बताया कि यह (पैकेट बंद चाय) भाफी हद तक नीलामी की कीमती पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, ः सबब बनी हुई हैं। 'जहां कहीं कीमतों में कमी आ रही है, उसका लाभ उपभोक्ताओं को

दिया जा रहा है।' टी बोर्ड की वेबसाइट के आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त से हाई टॉर्क डेंसिटी और कॉम्पैक्ट 2025 तक उत्तर भारतीय चाय की औसत कीमत 205.50 रुपये प्रति किलोग्राम थी जबकि 2024 की इसी अवधि में यह 222.37 ं है। इसलिए इस संकट ने रुपये प्रति किल थी।

सिंपल एनर्जी का बिना दुर्लभ धातु की मोटर पर दांव

मुंबई, 16 सितंबर

वित्त वर्ष 2027 में आईपीओ लाने की योजना बना रही इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता सिंपल एनर्जी भारत की पहली ऐसी ओईएम कंपनी बन गई है जो हेवी-रेअर-अर्थ (एचआरई) के बिना व्यावसायिक मोटरों का निर्माण कर रही है। इससे कंपनी को इस तरह की मोटरों के लिए दुर्लभ धातुओं के चीनी आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। ये धातुएं चीन द्वारा इस साल प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पिछले कुछ ः महीनो से उद्योग के लिए परेशानी का इस नवाचार के केंद्र में सिंपल

एनर्जी की आंतरिक अनसंधान एवं विकास टीम द्वारा विकसित पेटेंट प्राप्त मोटर आर्किटेक्चर है। कई वर्षों आकार के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटरों में दुर्लभ मैग्नेट का उपयोग स्वाभाविक रूप से चलन बन गया बीएस : स्थानीयकरण प्रयासों की सख्त जरूरत बढाई। सिंपल एनर्जी ने अपने विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला संचालन में 95 प्रतिशत स्थानीयकरण हासिल कर लिया है।

सिंपल एनर्जी के मुख्य कार्या धिकारी एवं सह-संस्थापक सुहास राजकुमार ने कहा, 'वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और भौतिक निर्भरता ने स्पष्ट कर दिया है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का भविष्य आत्मनिर्भरता पर आधारित होना चाहिए। व्यापक स्थानीयकरण और 'मेक इन इंडिया' दुष्टिकोण अब आकांक्षाएं नहीं बल्कि अनिवार्यताएं हैं।'कंपनी का तमिलनाडु के होसुर में 2,00,000 वर्ग फुट में निर्माण संयंत्र है। नई मोटर श्रृंखला दुर्लभ मैग्नेट पर निर्भरता के बगैर ठीक उसी तरह का 'बेजोड़ प्रदर्शन' और टॉर्क-

बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने वाली कई अन्य ईवी कंपनियों के विपरीत सिंपल एनर्जी अपनी मोटरें डिजाइन एवं तैयार करती है। इससे उसको पुनरावृत्तियों, परीक्षण और इस्तेमाल पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है, जिसके बारे में कंपनी का

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

दावा है कि इससे उसे प्रतिस्पर्धियों से बेहतर आंतरिक समाधान तैयार करने में मदद मिली है। इस महत्वपूर्ण कच्चे माल की कमी ने बजाज ऑटो जैसी कंपनियों को परेशान कर दिया था और उन्हें जुलाई-अगस्त में आपूर्ति संबंधी दबाव से जुझना पड़ा था। अगस्त के तीसरे सप्ताह में कंपनी ने कहा कि उसने आगामी त्योहारी सीजन के दौरान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दुर्लभ मैग्नेट और अन्य प्रमख सामग्रियों की आपर्ति सुनिश्चित कर ली है।

सुहास राजकुमार और श्रेष्ठ मिश्र

द्वारा वर्ष 2019 में स्थापित सिपल

एनर्जी ने बालमुरुगन अरुमुगम, विपुल खन्ना, देसाई फैमिली ऑफिस, हरन फैमिली ऑफिस, डॉ. चालित विशेषता मुहैया कराती है। ए वेलुमणि के फैमिली ऑफिस और वासावी ग्रप सहित प्रमुख निवेशकों से प्री-सीरीज ए और सीरीज ए फंडिंग में 4.1 करोड डॉलर से अधिक की राशि हासिल की है। कंपनी दो वाहन बेचती है - सिंपल वन जेन 1.5 (248 किमी) और सिंपल वनएस (181 किमी)।

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. ८०२, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई - 400069.

करनाल शाखा: SCO 334, प्रथम तल, मुगल नहर, करनाल-132001, (हरियाणा)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट ४ (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ संपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ संपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं. 30700000032/ करनाल शाखा) राजीव सिंह (ऋणी), सपना (सह-ऋणी), दीपक कुमार (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, किला नं. 297 20 7 12 सुंदर पट्टी भुंटो वाला मोहल्ला, गोंडर नहर के पास, गुगामारी आगनवाड़ी, ग्राम गोंडर तहसील निस्सिंग, करनाल, हरियाणा 132024. चर्तुसीमाएँ: - पूर्व - गली, पश्चिम - विक्रम, उत्तर - राकेश की संपत्ति, दक्षिण - गली	12-04-2025 & ₹ 11,01,184/-	15-09-2025
2	(लोन कोड नं. 3070000146 & 3070000224/ करनाल शाखा) प्रदीप (ऋणी), शीला देवी एवं प्रवेश कुमार (सह-ऋणी) महावीर (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, PPID NO 20C406U409 4 हरिजन मोहल्ला म.नं. 299 हरिजन मोहल्ला वार्ड नं. 5 गली नं. 1 पुंडरी, हरिजन चौपाल के पास, कैथल हरियाणा 136026. चर्तुसीमाएँ:- पूर्व - बाबू पिता श्री जय किशन, पश्चिम - गली, भुजा 59 फीट 0.6 इंच, उत्तर - गली, दक्षिण - पाली पिता श्री बढांउराम	10-12-2024 & ₹ 8,69,451/-	15-09-2025
स्थान : हरियाणा प्राधिकत अधिकारी				

फीचर बढ़े

व्हाट्सऐप बिजनेस पर ध्यान देते हुए मेटा ने मंगलवार को व्यवसायों के लिए और अधिक फीचर और ट्रल्स की घोषणा की है। इसके जरिये कंपनी का मकसद व्यवसायों को उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ने और प्रदर्शन बेहतर बनाना है।

दूसरे व्हाट्सऐप बिजनेस समिट में भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक और कंट्री हेड अरुण श्रीनिवास ने कहा, 'रोजाना सभी तरह के व्यवसाय तेज और अधिक प्रभावशाली ग्राहक अनुभव के लिए व्हाट्सऐप का लाभ लेते हैं। हमारे नए टूल और फीचर्स के साथ हमें भरोसा है कि व्यवसायों को निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा, ग्राहकों के साथ गहरे और अधिक व्यक्तिगत संबंध स्थापित होंगे तथा व्यवसाय पैमाना भी सफलतापूर्वक बढ़ाएंगे।' *बीएस*

चं**डीगढ़ संस्करण** : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा सी/ओ आइंडिया को विकैंग, तृतीय तल, एस.सी.ओ 32, 33, 34 सेक्टर-17-सी, चंडीगढ़-160017 से प्रकाशित एवं इम्प्रेशंस प्रिटिंग ऐंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं.-22, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, पंचकूला-134115, हरियाणा से मुद्रित संपादक : कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशननं. CHAHIN/2008/24509 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं I स्वामित्व : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002

दिनांक: 17.09.2025